

प्रेस नोट

जनपद सोनभद्र

दिनांक 03.08.2021

क्राईम ब्रांच सोनभद्र व थाना राबर्ट्सगंज को मिली बड़ी सफलता, अन्तर्जनपदीय हेरोइन तस्कर कुल 400 ग्राम नाजायज हेरोइन कीमत लगभग 40 लाख रुपये व 01 अदद मोटरसाइकिल व 02 नफर अभियुक्त गिरफ्तार-

जनपद सोनभद्र मे माह अगस्त मे पुलिस अधीक्षक सोनभद्र श्री अमरेन्द्र प्रसाद सिंह के निर्देशानुसार मादक पदार्थों के व्यापार मे संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की कार्य योजना प्रचलित है इसी क्रम मे अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय सोनभद्र श्री विनोद कुमार सिंह एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री राजकुमार त्रिपाठी के निर्देशन में स्वाट/एसओजी/सर्विलांस टीम तथा चौकी प्रभारी सुकृत, थाना राबर्ट्सगंज की संयुक्त टीम गठित की गयी । इस टीम द्वारा अथक लगन व परीश्रम से अपना आसूचना संजाल तैयार किया गया दिनांक 02.08.2021 को शायं करीब 16.50 बजे स्वाट/एसओजी/सर्विलांस टीम तथा चौकी प्रभारी सुकृत को जरिए मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि दो व्यक्ति एक लाल रंग की अपाची बाईक से सुकृत की तरफ से आ रहे है, रा0गंज की तरफ जायेंगे उनके पास हेरोइन है यदि जल्दी किया जाय तो पकड़े जा सकते है । इस सूचना पर स्वाट/एसओजी/सर्विलांस/प्रभारी निरीक्षक राबर्ट्सगंज तथा चौकी प्रभारी सुकृत की संयुक्त टीम द्वारा कमलकुंज ढाबा बहदग्राम आमडीह के दुसरी तरफ सड़क के किनारे मेन रोड पर गाड़ा बन्दी करके मोटर साइकिल अपाची सं0.UP64AN 4390 के साथ 02 नफर अभियुक्तों को पकड़ लिया गया। क्षेत्राधिकारी नगर की उपस्थिति मे पकड़े गये व्यक्तियों की जामा तलाशी ली गयी तो अवैध नाजायज हेरोइन पाया गया। जिनका वजन किया गया तो कुल 400 ग्राम है। इस गिरफ्तारी व बरामदगी का विवरण निम्नवत् है-

विवरण पूछताछ:- पूछताछ अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हम लोगों द्वारा ये मादक पदार्थ हेरोइन लखनऊ/बाराबंकी से लाकर जनपद सोनभद्र के आसपास व सीमावर्ती जनपदों में अच्छी कीमत पर बेचते हैं यही हमलोगों का व्यवसाय है।

नाम पता अभियुक्तगण:-

1. दीपक कुमार पुत्र परसुराम कहारनिवासी घुवास खुर्द थाना राबर्ट्सगंज,सोनभद्र उम्र करीब 27 वर्ष ।
2. जितेन्द्र नाथ पुत्र स्व0 रामनरेश कहार निवासी कुण्डाडीह थाना म्योरपुरजनपद सोनभद्र उम्र करीब 49 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण:-

1. कुल-400 ग्राम हेरोइन (अनुमानित मुल्य 40 लाख रुपये) ।
2. 01 अदद अपाची मोटर साइकिल संख्या UP64AN 4390 तथा नगद 550 रुपये ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. नि0 श्री श्यामबहादुर यादव प्रभारी एसओजी जनपद सोनभद्र ।
2. उ0नि0 श्री अमित कुमार त्रिपाठी प्रभारी स्वाट टीम जनपद सोनभद्र ।
3. उ0नि0 श्री ज्ञानेन्द्र सिंह प्रभारी चौकी सुकृत थाना रा0गंज,सोनभद्र ।
4. हे0का0 अरविन्द सिंह, हे0का0 जगदीश मौर्या, हे0का0 जितेन्द्र यादव, हे0का0 अमर सिंह, का0 हरिकेश यादव,का0 रितेश सिंह पटेल, स्वाट/एसओजी/सर्विलांस सेल जनपद सोनभद्र ।
5. का0 नान्हू यादव,का0 शितांशू पाण्डेय चौकी सुकृत थाना राबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र ।

इस सराहनीय कार्य को करने वाली पुलिस टीम के उत्साहवर्धन हेतु पुलिस अधीक्षक सोनभद्र द्वारा 25,000/- रुपये के नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है ।